

**प्रेस नोट दिनांक 28.12.2020**

**थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।**

**थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice द्वारा टॉप 10 व दुर्दान्त अपराधी पप्पू उर्फ तसलीम पुत्र यासीन नि0 ग्राम भिण्डौलिया थाना बिथरी चैनपुर बरेली को दौराने पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, कब्जे से एक 315 बोर देशी तमंचा, 10 कारतूस जिन्दा व एक खोखा तथा एक चाबियों का गुच्छा जिसमें करीब 19 चाबियाँ हैं एक ताला तोड़ने के लिये लोहे की राड तथा एक सफेद बिना नम्बर प्लेट की मो0सा0 अपाचे बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सर्द ऋतु में बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बरेली व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निर्देशन में आज रात्रि गश्त के दौरान थाना हाजा का टॉप 10 अपराधी पप्पू उर्फ तसलीम पुत्र यासीन नि0 ग्राम भिण्डौलिया थाना बिथरी चैनपुर बरेली रात्रि में करीब 00.30 बजे डोहरा रोड से हाइवे को जाने वाले रास्ते पर इटौआ बाजार में भारत एग्रीकल्चर कार्पोरेशन प्रहलाद सिंह पटेल की दुकान का सटर अपने साथी बब्बू पुत्र कल्लू नि0 उदयपुर जसरथपुर (काशी) के साथ तोड़ रहे थे तो रात्रि गश्ती दल जो उ0नि0 गौरव त्यागी के नेतृत्व में रात्रि गश्त पर मौजूद था कि जैसे ही नजर पड़ी तो अपराधियों को ललकारा । अपराधी जान गये थे कि पुलिस आ चुकी है इस पर दुर्दान्त अपराधियों द्वारा मोर्चा संभालते हुए जान से मारने की नियत से गश्ती पुलिस दल पर फायर किया । जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस दल द्वारा भी अभियुक्तगणों पर फायर किया गया जिसमें अभियुक्त पप्पू उर्फ तसलीम के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस बल की तरफ से मुख्य आरक्षी इजहार खाँ घायल हो गये । दूसरा अभियुक्त कलारी जाने वाली नहर के सहारे सहारे फायर करता हुआ रात्रि का लाभ उठाकर भागने में सफल हुआ । जिसकी पहचान बब्बू पुत्र कल्लू नि0 काशी के रूप में हुई । अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर देशी तमंचा व 10 कारतूस जिन्दा व एक खोखा तथा एक चाबियों का गुच्छा जिसमें करीब 19 चाबियाँ हैं तथा एक ताला तोड़ने के लिये लोहे की राड तथा एक सफेद बिना नम्बर प्लेट की मो0सा0 अपाचे बरामद हुई । अभियुक्तों पर करीब डेढ़-डेढ़ दर्जन मुकदमे डकैती, लूट, चोरी व इरादतन हत्या तथा गैंगस्टर एक्ट तथा आर्म्स एक्ट के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं । अपराधी थाना हाजा का टॉप टैन अपराधी है । घायल अभियुक्त व मुख्य आरक्षी को जिला अस्पताल वास्ते इलाज दाखिल कराया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 728/20 धारा 457/511/307 भा0द0वि0, मु0अ0सं0 729/20 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत कराया गया है । तथा बरामद मो0सा0 की अलग से जाँच की जा रही है ।

### **नाम पता अभियुक्तगण**

- 1.पप्पू उर्फ तसलीम पुत्र यासीन नि0 ग्राम भिण्डौलिया थाना बिथरी चैनपुर बरेली – गिरफ्तार
- 2.बब्बू पुत्र कल्लू नि0 उदयपुर जसरथपुर (काशी) थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली – फरार

## बरामदगी:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर, 10 अदद कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर
2. चाबियाँ – 19
3. ताला तोड़ने वाली लोहे की राड
4. अपाचे मो०सा० बिना नम्बर

## घायल अपराधी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 446/17 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बिथरी चैनपुर
2. मु०अ०सं० 447/17 धारा 414 भा०द०वि० थाना बिथरी चैनपुर बरेली
3. मु०अ०सं० 105/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिथरी चैनपुर बरेली
4. मु०अ०सं० 107/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली
5. मु०अ०सं० 893/17 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना बारादरी जिला बरेली
6. मु०अ०सं० 1007/17 धारा 11 पशु क्रूरता अधि० थाना इज्जतनगर बरेली
7. मु०अ०सं० 1009/17 धारा 4/25 ए एक्ट थाना इज्जतनगर बरेली
8. मु०अ०सं० 350/17 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना भुता जिला बरेली
9. मु०अ०सं० 629/19 धारा 395/412 भा०द०वि० थाना भोजीपुरा बरेली
10. मु०अ०सं० 140/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली
11. मु०अ०सं० 726/19 धारा 147/148/149/307 भा०द०वि० थाना सुभाषनगर बरेली
12. मु०अ०सं० 729/19 धारा 25 ए एक्ट थाना सुभाषनगर बरेली
13. मु०अ०सं० 728/20 धारा 457/511/307 भा०द०वि० थाना बिथरी चैनपुर बरेली
14. मु०अ०सं० 729/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना बिथरी चैनपुर बरेली

## गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SHO अशोक कुमार सिंह थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
2. उ०नि० श्री गौरव त्यागी थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
3. हे०का० 387 मो० इजहार खाँ थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
4. हे०का० 380 महेन्द्र सिंह थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
5. का० 1910 अश्वनी कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
6. का० 1123 निकुंज कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
7. का० 1906 मोहित कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
8. का० 1073 गौरव कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
9. का० 84 अंकित कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।
10. का० 2935 विनीत कर्णवाल थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली ।

सोशल मीडिया सैल  
जनपद बरेली ।

